



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1941 (श०)

(सं० पटना 1086) पटना, मंगलवार, 24 सितम्बर 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर 2019

सं० 3/एम०-54/2015-12783/सा०प्र०—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद।
1	स्वास्थ्य विभाग	(i) बिहार स्वास्थ्य सेवा के— (क) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) (ii) बिहार दन्त सेवा के— (क) दन्त चिकित्सक
2.	शिक्षा विभाग	(i) कनीय योजना पदाधिकारी
3.	श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)	श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के — (i) लिपिक
4.	श्रम संसाधन विभाग (नियोजन पक्ष)	निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के नियंत्रणाधीन बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग के — (i) निम्नवर्गीय लिपिक
5.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	(i) राज्य सम्पादक

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,  
सिद्धेश्वर चौधरी,  
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1086-571+10 -डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>